



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आश्विन 1937 (श10)

(सं0 पटना 1184) पटना, वृहस्पतिवार, 8 अक्टूबर 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

अधिसूचना

6 अगस्त 2015

सं० 1460—मुंगेर जिलान्तर्गत ग्राम+पो0— महेशपुर, थाना—मुफसिल स्थित श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी पर्षद् के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं० 3188 है।

इस न्यास की सुव्यवस्था हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक— 2431, दिनांक 22/08/1990 द्वारा 7 सदस्यों की एक न्यास समिति अगले आदेश तक बनायी गयी थी, जिसके पदेन अध्यक्ष— अंचल पदाधिकारी, सदर मुंगेर तथा सचिव श्री प्रभाकर कृष्ण सिंह थे।

सचिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यास समिति में आपसी सामंजस्य नहीं रहने के कारण न्यास का सुचारु प्रबंधन नहीं हुआ। इसी बीच न्यास समिति के दो सदस्यों की मृत्यु भी हो गयी तथा शेष सदस्यों द्वारा नयी समिति के गठन का अनुरोध किया गया है। अंचल पदाधिकारी, सदर मुंगेर का पत्र सं० 689, दिनांक 11/09/2012 द्वारा आम सभा से चयनित 9 सदस्यों की नामावली भी प्राप्त है। किसी भी न्यास समिति का कार्यकाल अनिश्चित अवधि तक नहीं रह सकता, ऐसी परिस्थिति में बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा-32 के अन्तर्गत अंचल पदाधिकारी द्वारा अनुशंसित नामों की न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा-32 में धार्मिक न्यास पर्षद् को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं० 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए “श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, ग्राम+पो0— महेशपुर, थाना— मुफसिल, जिला—मुंगेर” के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

#### योजना

1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी न्यास योजना, ग्राम+पो0— महेशपुर, थाना—मुफसिल, जिला—मुंगेर” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी न्यास समिति, ग्राम+पो0—महेशपुर, थाना—मुफसिल, जिला—मुंगेर” होगा, जिसमें न्यास की समग्र चल—अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा—पाठ एवं साधु—सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं उपाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तारित भूमि "यदि कोई हो तो", उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।  
पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को न्यास समिति गठित की जाती है:-

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| (1) अंचल पदाधिकारी, सदर मुंगेर                           | — | पदेन अध्यक्ष |
| (2) श्री उमाकांत सिंह पिता— स्व० सच्चिदानंद              | — | उपाध्यक्ष    |
| (3) श्री प्रभाकर कृष्ण सिंहा पिता— स्व० गोपी कृष्ण सिंहा | — | सचिव         |
| (4) श्री मुरारी कृष्ण सिंह पिता— स्व० हरिवंश प्रसाद सिंह | — | सदस्य        |
| (5) श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह पिता— स्व० हित नारायण सिंह | — | सदस्य        |
| (6) श्री निरंजन प्रसाद सिंह पिता— श्री शीत चौधरी         | — | सदस्य        |
| (7) श्री पवन कुमार सिंह पिता— स्व० श्रीकण्ठ प्र० सिंह    | — | सदस्य        |
| (8) श्री रूपेश पासवान पिता— स्व० रामचन्द्र पासवान        | — | सदस्य        |
| (9) थाना प्रभारी, मुफसिल, मुंगेर                         | — | सदस्य        |

सभी निवासी, ग्राम+पो०— महेशपुर, थाना— मुफसिल, मुंगेर

12. इस न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्ष तक लागू रहेगी, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर आगे बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा एवं कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर न्यास समिति को विघटित किया जा सकता है।

आदेश से,

**किशोर कुणाल,**  
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1184-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>